

अनं- F.D.R. 3054. (Permanent Restoration)

Schedule XLV-Form No. 134

DARBHANGA DIVISION

HAYAGHAT SUB-DIVISION


MB.No: - 4028/22-23

MEASUREMENT BOOK

INDEX

PAGE

प्रमाणित किया जाता है कि
इस मापी-पुस्त में टंकित कुल-100
(एक सौ) पन्ने हैं जो सुधी गुरिया -
कुमार्ये सहायक अभियंता, आजीण
कार्य विभाग, कार्य क्रम अवर प्रमंडल
द्वारा के नाम से निर्गत किया जाता
है


Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1
4.8.22

Reissued to JE HAYAGHAT
Baleshwar Yadav

Guriya
30/08/2022
AE

INDEX

PAGE

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1 x 1.50 x 1.00				x 0.075 = 0.11 m ³	
1 x 1.00 x 1.10				x 0.075 = 0.10 "	
1 x 0.30 x 0.90				x 0.075 = 0.22 "	
1 x 3.45 x 1.20				x 0.075 = 0.31 "	
1 x 19.00 x 1.50				x 0.075 = 2.14 "	
1 x 5.10 x 2.50				x 0.075 = 0.96 "	
1 x 3.30 x 0.30				x 0.075 = 0.13 "	
1 x 7.50 x 1.25				x 0.075 = 0.72 "	
1 x 9.50 x 1.25				x 0.075 = 0.89 "	
1 x 3.50 x 2.00				x 0.075 = 0.53 "	
1 x 3.50 x 3.75				x 0.075 = 0.98 "	
1 x 4.25 x 2.00				x 0.075 = 0.64 "	
1 x 5.80 x 0.60				x 0.075 = 0.26 "	

1 x 4.80 x 1.50				x 0.075 = 0.54 "	
1 x 3.80 x 1.00				x 0.075 = 0.29 "	
1 x 4.00 x 1.30				x 0.075 = 0.45 "	
1 x 2.20 x 1.70				x 0.075 = 0.28 "	
1 x 3.50 x 0.70				x 0.075 = 0.18 "	
1 x 11.50 x 3.75				x 0.075 = 3.23 "	
1 x 5.00 x 1.10				x 0.075 = 0.41 "	
1 x 3.60 x 1.30				x 0.075 = 0.35 "	
1 x 4.00 x 1.40				x 0.075 = 0.50 "	
1 x 2.60 x 1.30				x 0.075 = 0.25 "	
1 x 2.20 x 1.00				x 0.075 = 0.17 "	
1 x 12.50 x 1.50				x 0.075 = 1.41 "	
1 x 3.40 x 0.80				x 0.075 = 0.20 "	
3 x 3.50 x 3.75				x 0.075 = 2.94 "	

Co. 21.92 m³

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1 x 3.50 x 1.40 x 0.075					= 0.26 m ²
1 x 2.50 x 1.40 x 0.075					= 0.26 m ²
1 x 16.75 x 1.20 x 0.075					= 0.26 m ² 1.51 m ²
1 x 8.00 x 3.75 x 0.075					= 2.25 m ²
1 x 5.75 x 2.00 x 0.075					= 0.86 m ²
2 x 2.50 x 3.75 x 0.075					= 1.70 m ²
1 x 16.75 x 2.00 x 0.075					= 2.51 m ²
1 x 8.00 x 0.90 x 0.075					= 0.54 m ²
					31.51 m ²
					Guirga
					13/03/2022
					AE

Date of entry - 05/09/2022

① providing and applying
prime coat with bitumen
emulsion (SS-1)

$$\text{Qty.} = 31.51 / 0.075 = 420.14 \text{ m}^2$$

② providing & applying
Tack Coat with bitumen

Emulsion (RS-1)

$$1 \times 25.00 \times 3.75 = 93.75 \text{ m}^2$$

$$1 \times 30.00 \times 3.75 = 112.50 \text{ m}^2$$

$$5 \times 30.00 \times 3.75 = 562.50 \text{ m}^2$$

$$5 \times 30.00 \times 3.75 = 562.50 \text{ m}^2$$

$$1 \times 15.00 \times 3.75 = 56.25 \text{ m}^2$$

$$1387.50 \text{ m}^2$$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
① providing laying, spreading & compacting 20mm thick open graded premix and seal surfacing					
Qty. 31.51 M ² — (P/3)					
@ 3518.57/M ² — Rs 110870.20					
② providing & applying primer coat (5%)					
Qty. 420.14 M ² — (P/3)					
@ 56.98/M ² — Rs 23940.20					
③ providing and applying Jado coat (8%)					
Qty. 1387.50 M ² — (P/3)					
@ 17.08/M ² — Rs 24473.20					
④ providing laying and sealing 20mm thick open graded premix and seal surfacing					
Qty. 1387.50 M ² — (P/4)					
@ 240.40/M ² — Rs 333555.20					
Rs 4,92,838.20					
Add G.S.T. 12% — Rs 59141.20					
Total L.C. 1% — Rs 3336.20					
Rs 5,55,315.20					
Less 0.28% as per Agreement — (-) Rs 1555.20					
Rs 5,53,760.20					

Continuation